

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन के बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम ने जरूरतमंद निवासियों के लिए 10,000 पाउंड से अधिक सब्जियां प्रदान कीं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (20 अक्टूबर, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program) अब पूरा हो गया है। इस प्रोग्राम से, अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक, जरूरतमंद निवासियों को 10,000 पाउंड से अधिक सब्जियां दान की गईं।

बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम के चेयर, वाइस 2 और 6 के सिटी काउंसलर डग विलैन्स (Doug Whillans) हैं। यह प्रोग्राम सिटी के पार्क्स मेंटेनेंस एंड फोरेस्ट्री (Parks Maintenance and Forestry) डिवीजन की मदद से किया गया है। कोविड-19 (COVID-19) को रोकने की प्रतिक्रिया के दौरान कॅनेडा में इस तरह के पहले प्रोग्राम के तौर पर, इसकी शुरुआत 15 अप्रैल को की गई थी। यह कम्युनिटी गार्डन्स (Community Gardens) प्रोग्राम का विस्तार है।

इस प्रोग्राम ने [मेयर की कोविड-19 सोशल स्पॉर्ट टास्क फोर्स \(Mayor's COVID-19 Social Support Task Force\)](#) को भोजन संबंधी संसाधन प्रदान किए, जिसने ब्रैम्पटन के कमज़ोर समुदायों को आवश्यक सामाजिक सहायता की सहूलियत दी।

सभी ब्रैम्पटन निवासियों के लिए खुले इस प्रोग्राम ने निवासियों को उनके नए गार्डनों के लिए मिट्टी, बीजों के पैकेट और सब्जियां आदि उगाने संबंधी सलाह प्रदान की। अप्रैल से अक्टूबर तक, निवासियों ने अपने खुद के बैकयार्ड गार्डनों में सब्जियां आदि उगाईं, जिनमें से कुछ उनकी कटाई कर रहे हैं और दूसरे लोकल फूड बैंकों और सामुदायिक संगठनों को दान कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं, नाइट्स टेबल (Knights Table), रीजेनरेशन (Regeneration), खालसा एड (Khalsa Aid) और यूनाइटेड सिख्स (United Sikhs)।

ताज़ी फसल के साथ जरूरतमंद निवासियों की मदद करने के अलावा, इस ईको-फ्रेंडली पहलकदमी ने निवासियों को कोविड-19 के दौरान क्रियाशील रहने के लिए प्रोत्साहित किया और घर में गतिविधि प्रदान करके ब्रैम्पटन के निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य को कायम रखने में मदद की। यह पहली बार बागबानी करने वाले लोगों के लिए, बागबानी के बारे में सीखने और नया शौक आजमाने का भी अवसर था।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, इस प्रोग्राम को संभव बनाने के लिए अपने समर्थकों स्कॉट्स (Scotts), मैटमी होम्स (Mattamy Homes), पैराडाइज डेवलेपमेंट्स (Paradise Developments), टी.ए.सी.सी. होल्बोर्न कार्पोरेशन (TACC Holborn Corporation) और फील्डगेट डेवलेपमेंट्स (Fieldgate Developments) का धन्यवाद करती है।

क्रमशः कार्य

- प्रोग्राम शुरू होने के तीन दिनों के अंदर ही, 6,000 निवासियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया।

- 45 से अधिक वालंटियर्स ने हिस्सा लेने वालों को मुफ्त बीज प्रदान करने में सहायता के लिए 490 घंटे काम किया।
- स्टाफ और वालंटियर्स ने हिस्सा लेने वालों को 3,057 यार्डों तक मिट्टी के ढेर; मिट्टी के 8,553 बैग; और बीजों के 15,162 पैकेट प्रदान किए।

हवाले

“हमने बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम और काउंसलर विलैन्स की लीडरशिप के लिए शानदार प्रतिक्रिया देखी। हमें गर्व है कि कैंनेडा में इस तरह की पहली पहलकदमी के तौर पर, ब्रैम्पटन में इस पहलकदमी ने, पास और दूर के शहरों को प्रेरित करते हुए जीत हासिल की। कोविड-19 सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स ने, मुश्किल समय के दौरान, नाइट्स टेबल और रेगन के द्वारा, कमज़ोर ब्रैम्पटन निवासियों को भोजन संबंधी जरूरी मदद प्रदान की। साथ ही, जिन्होंने सब्जियां आदि उगाकर अपनी फसल दान की, उन्होंने हमारे फूड बैंकों पर दबाव को कम किया, हमारे वातावरण की मदद की और हम सभी को गर्व करने लायक बनाया”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारा सबसे पहला बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, ब्रैम्पटन में एक बड़ी सफलता था। हम हज़ारों निवासियों के लिए बीज और मिट्टी लाए, जिसने जरूरतमंद निवासियों को 10,000 पौंड से अधिक सब्जियां प्रदान कीं। मैं हर उस निवासी और कारोबारी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस बड़े बदलाव वाली पहलकदमी का हिस्सा था, जिसने हर किसी को इस वर्ष बागबानी करने, आउटडोर आनंद लेने और हमारे समुदाय को दान देने के लिए प्रोत्साहित किया।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी के स्टाफ ने, बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम को लागू करने में कड़ी मेहनत करके, हमारे समुदाय के लिए शानदार प्रतिबद्धता और परवाह दर्शाई है। हम नतीजों से बेहद प्रभावित हैं। ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है, जो टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रोग्राम ने, निवासियों को सक्रिय रखा और ब्रैम्पटन में व्यक्तियों और परिवारों को भोजन संबंधी सुरक्षा प्रदान की है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन का बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, एक शानदार पहलकदमी था। जिन कमज़ोर परिवारों, व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए हम काम करते हैं, उनमें से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य कायम रखने में उनकी मदद के लिए, ताज़े फल और सब्जियां जरूरी हैं। गार्डन प्रोग्राम एक मूल्यवान संसाधन था, जिसने भोजन से वंचित परिवारों को बेहद आवश्यक सब्जियां आदि प्रदान कीं।”

- ऐनी बाइनो (Annie Bynoe), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नाइट्स टेबल

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, बहुत बड़ी सफलता था। रीजेनरेशन आउटरीच कम्युनिटी को मिली ताज़ी फसल उन ब्रैम्पटन निवासियों की ज़िंदगियों पर सीधा असर थी, जिन्होंने हमारे भोजन संबंधी प्रोग्राम और हमारे एमरजेंसी फूड बैंक तक पहुंच प्राप्त की। हम हमारे निवासियों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, सिटी के दृष्टिकोण के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।”

- *टेड ब्राउन (Ted Brown), सी.ई.ओ., रीजेनरेशन आउटरीच कम्युनिटी*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca